

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,
पुणे यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदे
दिनांक ०१.०७.२००६ ते ३१.१२.२००६
पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत...

महाराष्ट्र शासन

आदिवासी विकास विभाग,

शासन निर्णय क्रमांक : आस्था-२००४/प्र.क्र.२०/का.१५

मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२.

दिनांक : ०१ ऑगस्ट, २००६

- संदर्भ :-**
- १) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक आस्था-२००४/प्र.क्र.२०/का.१५, दिनांक १८ ऑगस्ट, २००५.
 - २) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक एसटीसी-१००५/प्र.क्र.६२/का.१०, दिनांक ०७ डिसेंबर, २००५
 - ३) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक आस्था-२००४/प्र.क्र.२०/का.१५, दिनांक २० एप्रिल, २००६
 - ४) आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक आस्था-११०२/ प्र.क्र.८/का.१/१२१४, दिनांक १२ मे, २००६.

शासन निर्णय :- आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अधिपत्याखालील तपासणी समित्या, दक्षता पथके तसेच मुख्यालय व समितीच्या कार्यालयाकरीता मंजूर करण्यात आलेली १५४ अस्थायी पदे ०१ मार्च, २००६ ते ३० जून, २००६ पर्यंत चालू ठेवण्यास संदर्भाधिन क्रमांक ३ वरील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी संदर्भ क्रमांक ४ येथील पत्रान्वये विनंती केली आहे. सबब, या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र-अ मध्ये दाखविलेली एकूण १५४ अस्थायी पदे दिनांक ०१ जुलै, २००६ ते ३१ डिसेंबर, २००६ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास शासन मंजूरी देत आहे.


२. या १५४ अस्थायी पदांवरील खर्च या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र-ब मध्ये नमूद लेखाशिर्षाखाली करण्यात येवून त्या लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा.

३. या शासन निर्णयान्वये जी १५४ अस्थायी पदे चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे, त्या अस्थायी पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीकरीता रिक्त नाही असे आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी प्रमाणित करावे.

४. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्या विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५००/०६/व्यय१४, दिनांक २६ जुलै, २००६ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेब साईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक २००६०८०११७३०२८००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,


(दु. र. चंद्रिकापुरे)
अवर सचिव.

प्रति,

आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, महाराष्ट्र राज्य,
पुणे.

आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक.

सर्व विभागीय आयुक्त

अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/अमरावती/नागपूर.

उपसंचालक, अनुसूचितजमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, ठाणे/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर.

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/नाशिक/नागपूर/ठाणे/अमरावती/औरंगाबाद

वित्त विभाग (व्यय-१४), (अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२.

निवड नस्ती (का.१५), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.

विवरणपत्र-अ

**शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक आस्था-२००४/प्र.क्र.२०/का.१५, दिनांक ३१ जुलै, २००६.
आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदे दर्शविणारे विवरणपत्र.**

अ.क्र.	पदनाम	वेतनश्रेणी	पद संख्या	पद ज्या शासन निर्णयान्वये निर्माण करण्यात आले त्याचा क्रमांक व दिनांक	सन २००६-२००७ या वर्षात ज्या अर्थशिर्षाखाली खर्च करावयाचा तो व्ययशिर्ष
१	सहसंचालक / सहआयुक्त	रु.१२०००-३७५-१६५००	६	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक एसटीसी-१००५/ प्र.क्र.६२/का.१०, दिनांक ०७.१२.२००५	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.४ प्रमाणे
२	सहसंचालक	रु.१२०००-३७५-१६५००	१	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक आस्था-१०९९/ प्र.क्र.९७/का.१५, दिनांक २.८.२०००	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.२ प्रमाणे
३	उपसंचालक (सं)	रु.१००००-३२५-१५२००	२	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक आस्था-१०८९/ प्र.क्र.६८२/का.१५, दिनांक १४.११.१९९०	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र. १ प्रमाणे
४	उपसंचालक (सं)	रु.१००००-३२५-१५२००	३	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक एसटीसी-१०९९/ प्र.क्र.१३८/का.१०, दिनांक ६.९.२०००	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.१ प्रमाणे
५	विधी अधिकारी	रु.१००००-३२५-१५२००	१	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक आस्था-१०८९/ प्र.क्र.६८२/का.१५, दिनांक १४.११.१९९०	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.१ प्रमाणे
६	विधी अधिकारी	रु.१००००-३२५-१५२००	२	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक एसटीसी-१०९९/ प्र.क्र.१३८/का.१०, दिनांक ६.९.२०००	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.१ प्रमाणे
७	वरिष्ठ संशोधन अधिकारी (वर्ग-१)	रु.८०००-१३५००	६	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक एसटीसी-१०९७/ १३२२/प्र.क्र.१५२/का.१०, दिनांक ९.७.१९९८	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.१ प्रमाणे
८	पोलीस उप अधिक्षक	रु.८०००-१३५००	३	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक एसटीसी-१८९५/ प्र.क्र.१८२/भाग-२/का.१०, दिनांक १६.३.१९९६	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.१ प्रमाणे
९	पोलीस उप अधिक्षक	रु.८०००-१३५००	३	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक एसटीसी-१०९९/ प्र.क्र.१३८/का.१०, दिनांक ६.९.२०००	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.१ प्रमाणे
१०	संशोधन अधिकारी	रु.६५००-२००-१०५००	१	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक सीबीसी-१६८४/ (२११८/२९१)/डी-२, दिनांक १५.२.१९८५	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.१ प्रमाणे
११	संशोधन अधिकारी	रु.६५००-२००-१०५००	४	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक आस्था-१०८९/ प्र.क्र.६८२/का.१५, दिनांक १४.११.१९९०	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.१ प्रमाणे
१२	संशोधन अधिकारी	रु.६५००-२००-१०५००	६	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक एसटीसी-१०९९/ प्र.क्र.१३८/का.१०, दिनांक ६.९.२०००	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.१ प्रमाणे

अ.क्र.	पदनाम	वेतनश्रेणी	पद संख्या	पद ज्या शासन निर्णयान्वये निर्माण करण्यात आले त्याचा क्रमांक व दिनांक	सन २००६-२००७ या वर्षात ज्या अर्थशिर्षाखाली खर्च करावयाचा तो व्ययशिर्ष
१३	पोलीस निरीक्षक	रु.६५००-२००-१०५००	१८	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक एसटीसी-१८९५/प्र.क्र.१८२/भाग-२/का.१०, दिनांक १६.३.१९९६	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.१ प्रमाणे
१४	पोलीस निरीक्षक	रु.७४५०-२२५-११०५०	१२	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक एसटीसी-१८९५/प्र.क्र.१८२/भाग-२/का.१०, दिनांक १३.३.१९९६	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.१ प्रमाणे
१५	संशोधन सहाय्यक	रु.५५००-१७५-९०००	१	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक सीबीसी-४४९/सीआर-४४८/डी-१०, दिनांक २४.९.१९८५	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.२ प्रमाणे
१६	संशोधन सहाय्यक	रु.५५००-१७५-९०००	३	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक एसटीसी-१०९९/प्र.क्र.१३८/का.१०, दिनांक ६.९.२०००	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.१ प्रमाणे
१७	कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी	रु.५५००-१७५-९०००	६	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक एसटीसी-१०९९/प्र.क्र.१३८/का.१०, दिनांक ६.९.२०००	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.१ प्रमाणे
१८	निम्नश्रेणी लघुलेखक	रु.५५००-१७५-९०००	३	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक एसटीसी-१८९५/प्र.क्र.१८२/भाग-२/का.१०, दिनांक १६.३.१९९६	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.१ प्रमाणे
१९	निम्नश्रेणी लघुलेखक	रु.५५००-१७५-९०००	३	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक एसटीसी-१०९९/प्र.क्र.१३८/का.१०, दिनांक ६.९.२०००	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.१ प्रमाणे
२०	सांख्यिकी सहाय्यक	रु.४०००-१००-६०००	१	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक टीआरआय-१०८३/१८२८८/डी-५, दिनांक २५.५.१९८४	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.३ प्रमाणे
२१	लघुटंकलेखक	रु.४०००-१००-६०००	१	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक सीबीसी-१६८४/(२११८/२९१)/डी-२, दिनांक १५.२.१९८५	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.२ प्रमाणे
२२	लघुटंकलेखक	रु.४०००-१००-६०००	२	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक एसटीसी-१०९०/२३९४२/१८६/का.१०, दिनांक ३.६.१९९२	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.२ प्रमाणे
२३	लघुटंकलेखक	रु.४०००-१००-६०००	३	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक एसटीसी-१०९९/प्र.क्र.१३८/का.१०, दिनांक ६.९.२०००	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.१ प्रमाणे
२४	अन्वेषक (क)	रु.३०५०-७५-३९५०-८०-४५९०	१	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक टीआरआय-१९८३/१८२८८/डी-५, दिनांक २५.५.१९८४	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.३ प्रमाणे
२५	लिपिक-टंकलेखक	रु.३०५०-७५-३९५०-८०-४५९०	१	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक सीबीसी-४४९/सीआर-४४८/डी-१०, दिनांक २४.९.१९८५	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.३ प्रमाणे

अ.क्र.	पदनाम	वेतनश्रेणी	पद संख्या	पद ज्या शासन निर्णयान्वये निर्माण करण्यात आले त्याचा क्रमांक व दिनांक	सन २००६-२००७ या वर्षात ज्या अर्थशिर्षाखाली खर्च करावयाचा तो व्ययशिर्ष
२६	लिपिक-टंकलेखक	रु.३०५०-७५-३९५०-८०-४५९०	३	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक एसटीसी-१०९०/२३९४२/१८६/का.१०, दिनांक ३.६.१९९२	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.२ प्रमाणे
२७	लिपिक-टंकलेखक	रु.३०५०-७५-३९५०-८०-४५९०	३	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक एसटीसी-१८९५/प्र.क्र.१८२/भाग-२/का.१०, दिनांक १६.३.१९९६	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.२ प्रमाणे
२८	लिपिक-टंकलेखक	रु.३०५०-७५-३९५०-८०-४५९०	६	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक एसटीसी-१०९९/प्र.क्र.१३८/का.१०, दिनांक ६.९.२०००	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.१ प्रमाणे
२९	लिपिक-टंकलेखक	रु.३०५०-७५-३९५०-८०-४५९०	३	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक एसटीसी-१०९९/प्र.क्र.१३८/का.१०, दिनांक ६.९.२०००	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.१ प्रमाणे
३०	पोलीस शिपाई	रु.३०५०-७५-३९५०-८०-४५९०	३०	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक एसटीसी-१०९९/प्र.क्र.१३८/का.१०, दिनांक ६.९.२०००	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.१ प्रमाणे
३१	वाहन चालक	रु.३०५०-७५-३९५०-८०-४५९०	१	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक एसटीसी-१०९०/२३९४२/१८६/का.१०, दिनांक ३.६.१९९२	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.२ प्रमाणे
३२	वाहन चालक	रु.३०५०-७५-३९५०-८०-४५९०	१	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक आस्था-१०९६/प्र.क्र.२१९/का.१५, दिनांक १६.१.१९९६	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.१ प्रमाणे
३३	वाहन चालक	रु.३०५०-७५-३९५०-८०-४५९०	३	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक एसटीसी-१८९५/प्र.क्र.१८२/भाग-२/का.१०, दिनांक १६.३.१९९६	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.१ प्रमाणे
३४	पाहरेकरी	रु.२५५०-५५-२६६०-६०-३२००	१	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक टीआरआय-१०८५/६९८/सीआर-१६७/डी-१५, दि. १२.९.१९८५	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.२ प्रमाणे
३५	शिपाई	रु.२२५०-५५-२६६०-६०-३२००	५	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक आस्था-१०८९/प्र.क्र.६८२/का.१५, दिनांक १४.११.१९९०	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.२ प्रमाणे
३६	शिपाई	रु.२५५०-५५-२६६०-६०-३२००	२	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक एसटीसी-१०९०/२३९४२/१८६/का.१०, दिनांक ३.६.१९९२	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.२ प्रमाणे
३७	शिपाई	रु.२५५०-५५-२६६०-६०-३२००	३	शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक एसटीसी-१०९९/प्र.क्र.१३८/का.१०, दिनांक ६.९.२०००	विवरणपत्र-ब मधील अ.क्र.१ प्रमाणे
		एकूण पदे	१५४		

विवरणपत्र-ब

शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक आस्था-२००४/प्र.क्र.२०/का.१५, दिनांक ३१ जुलै, २००६.

आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांच्या वेतनाच्या खर्चाचे लेखाशिर्ष

अ.क्र.	सन २००६-२००७ या वर्षात ज्या अर्थशिर्षाखाली खर्च करावयाचा तो व्ययशिर्ष
१	मागणी क्रमांक टी-४, २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजना-०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण-००१-संचालन व प्रशासन (ए) नियोजन व संनियंत्रण शाखा-जनजाती संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (ए) राज्य योजनांतर्गत योजना (२२२५ २६५८) (बी) केंद्र पुरस्कृत योजना (२२२५ १८६७)
२	मागणी क्रमांक टी-२, २२२५- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण-२७७-शिक्षण-०५, संशोधन व प्रशिक्षण (१) (ए) जनजाती संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (२२२५ १३०१)
३	मागणी क्रमांक टी-२, २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण-०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण-००१-संचालन व प्रशासन (०४) एकात्मिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम (२२२५ १०५२)
४	मागणी क्रमांक टी-४, २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजना-०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण-००१-संचालन व प्रशासन (४) नियोजन व संनियंत्रण कक्ष-जनजाती संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (अ) राज्य योजनांतर्गत योजना (२२२५ २६५ ८) - ५० % (बी) केंद्र पुरस्कृत योजना (२२२५ १८६ ८) - ५०%